



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो प्रमुख

20 अगस्त, 2020

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान - जम्मू के साथ ICSI सिग्रेचर अवार्ड योजना शुरू करने के लिए एक समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते (MoU) का उद्देश्य संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान, संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन, कंपनी सचिवों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, संसाधनों को साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल आदान - प्रदान एवं ICSI एवं IIM इंदौर के मध्य एक व्यापक साझेदारी विकसित करना है। समझौते के तहत आईआईएम जम्मू के प्रोग्राम्स के टॉपर्स को ICSI सिग्रेचर अवार्ड स्वर्ण पदक तथा CS कोर्स करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी

अध्यक्ष, सीएस आशीष गर्ग ने ICSI की ओर से MoU पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि “ICSI का आदर्श वाक्य उच्च बौद्धिक क्षमता वाले प्रोफेशनल्स को विकसित करना है और IIM का उद्देश्य वैश्विक लीडर्स का विकास करना है। इसलिए, दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अधिकतम मूल्य सृजन सुनिश्चित होगा। ”

IIM जम्मू के निदेशक प्रो बी.एस. सहाय ने ICSI और IIM के बीच समझौता ज्ञापन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि यह न केवल दो साझेदार संस्थानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा बल्कि कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा।

ICSI के उपाध्यक्ष सीएस नागेंद्र डी राव ने अपने संबोधन में, एमओयू के उद्देश्य का विस्तृत विवरण दिया और शासन के महत्व और लीडर्स के आंतरिक गुणों को भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से बताया।

IIM जम्मू के कार्यकारी शिक्षा प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉ मुकबिल बुरहान और IIM जम्मू के प्रोफेसर डॉ जाबिर अली ने IIM जम्मू में चल रहे विभिन्न और आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए इस समझौते से होने वाले नए अवसरों के बारे में बताया ।

इस सत्र के दौरान माई ट्रांसफॉर्म के सह-संस्थापक श्री राजीव भदौरिया ने "कंप्लायंस टू गवर्नेंस - नया नेतृत्व प्रतिमान" पर सम्बोधित किया एवं इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के सुशासन

को त्वरित निर्णय और सुस्त सपनों के सिद्धांत पर कैसे संरेखित किया जाएगा और भविष्य में एआई और मानव सहयोग का वांछित संयोजन 'को-बॉटिक्स' की अवधारणा को समझाया।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu